

Hindi 7th



अभ्यास



मौखिक

Speaking Skills

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

1. स्कूल में किस समारोह का आयोजन किया जा रहा था?
2. लड़के का क्या नाम था?
3. कौन-सी कक्षा के छात्रों की अनुपस्थिति संख्या बहुत अधिक थी?



लिखित

Writing Skills

क. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. रिक्की बहुत सुबह क्यों जागा था?

2. रिक्की स्वतन्त्रता दिवस समारोह में जाने की अपेक्षा दादी के पास क्यों गया?

3. प्रधानाचार्य ने अनुपस्थित छात्रों को कैसे दण्डित किया?

4. प्रधानाचार्य ने रिक्की से क्या वचन माँगा?

English 7th

 EXERCISE

A. Answer the following questions:

1. What was the poet doing when he saw the daffodils?
2. What does the poet compare himself to?
3. Where were the daffodils growing?
4. What were the daffodils doing in the breeze?
5. How does the poet compare the daffodils with the stars?
6. How did the poet feel in the company of the daffodils?


B. Find out from the poem all the uses of figurative words. Then add two or three other words to each.

EXERCISE 8.4




1. Find the unknown length y in the following figures :


(a)



(b)



(c)



2. Determine, whether the given sides are sides of right angled triangle or not :

(a) 8 cm, 15 cm and 17 cm

(b) 12 cm, 15 cm and 17 cm

(c) 6 cm, 11 cm and 15 cm

(d) 5 cm, 24 cm and 25 cm

- A ladder 17 m long is placed against a wall of a house in such a way that the foot of the ladder is 15 m away from the wall. Upto what height will the ladder reach on the wall?
- A 15 m long ladder reached a window 12 m high from the ground on placing it against a wall at a certain distance. Find the distance of the foot of the ladder from the wall.
- A tree is broken at a height of 5 m from the ground and its top touched the ground at a distance of 12 m from the base of the tree. Find the total height of the tree before broken.
- Two poles 45 m and 30 m high, stand upright on the ground. If their feet is 8 m apart, find the distance between their tops.
- Two poles 18 m and 13 m high stand upright on the ground. If the distance between their tops is 13 m, find the horizontal distance between the poles.

the plant.

SCIENCE 7th

C. Write True or False against each statement :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. The fruits of Xanthium can be dispersed by sheep. | ☐ |
| 2. Root is the reproductive part of a plant. | ☐ |
| 3. Hydra can regenerate its lost part. | ☐ |
| 4. Sweet potato is reproduced through underground stem. | ☐ |
| 5. Coconut has a fibrous coat which makes them float in water. | ☐ |

D. Match the following :


Column I

1. Watermelon
2. Eyes
3. Fragmentation
4. Lily
5. Spores

Column II

- (i) Bisexual flower
- (ii) Spirogyra
- (iii) Unisexual flower
- (iv) Bread mould
- (v) Potato

**Female part
of flower**



Parts of a flower